

## कोस्को का ढाई लाख का नकली माल बरामद

Publish Date: Sun, 23 Feb 2020 10:00 AM (IST)



कोस्को कंपनी के नाम पर नकली माल बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। गुरुग्राम से आई टीम ने पुलिस के साथ छापामारी कर ढाई लाख रुपये का माल बरामद किया। टीम ने फैक्ट्री मालिक को भी

मेरठ, जेएनएन। कोस्को कंपनी के नाम पर नकली माल बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। गुरुग्राम से आई टीम ने पुलिस के साथ छापामारी कर ढाई लाख रुपये का माल बरामद किया। टीम ने फैक्ट्री मालिक को भी पकड़ लिया।

ब्रांड प्रोटेक्टर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गुरुग्राम के निदेशक धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि उनको सूचना मिली थी कि मेडिकल थाना क्षेत्र के शेरगढ़ी में कोस्को कंपनी की नकली फुटबाल और वॉलीबाल बनाई जा रही हैं। एक साल से टीम के सदस्य कंपनी पर नजर रख रहे थे। शनिवार को टीम ने मेडिकल पुलिस के साथ शेरगढ़ी में पवन स्पोर्ट्स कंपनी में छापामारी की। पुलिस ने मौके से फैक्ट्री मालिक पवन को गिरफ्तार कर लिया। फैक्ट्री से करीब ढाई लाख रुपये की नकली फुटबाल और वालीबाल मिली। कंपनी निदेशक ने बताया कि बिल बुक से पता चला कि आरोपित आसपास के जिलों के अलावा दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, बिहार और बंगाल तक माल की सप्लाई करता था। फैक्ट्री में दस से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। पवन चार साल से नकली सामान बनाने और बेचने का काम कर रहा है। थाना प्रभारी कुलबीर सिंह ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

फेसबुक को बनाया आधार

धीरेन्द्र ने बताया कि पवन फेसबुक के जरिए कारोबार कर रहा था। उसने एक पेज भी बनाया हुआ था। उस पर ही सामान के फोटो पोस्ट करता था। उसके जरिए ही आर्डर लेता था। जांच के दौरान पता चला कि आठ सौ से ज्यादा लोगों से वह डील कर रहा था। पवन इतना शातिर है कि हर बार बच जाता था। वहीं, वाट्सएप के जरिए भी वह लोगों से जुड़ा हुआ था। नकली सामान को बेचने के लिए वह सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा था।

Source: <https://www.jagran.com/uttar-pradesh/meerut-city-cosco-chr39-s-fake-goods-recovered-for-25-lakhs-20055694.html>